

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवाजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 158]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2010—फाल्गुन 28, शक 1931

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2010

क्र. 1912-105-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL  
No. 4 of 2010

MAHARSHI PANINI SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2010.

#### TABLE OF CONTENTS

#### Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of citation.
3. Amendment of long title.
4. Amendment of Section 1.
5. Amendment of Section 2.
6. Amendment of Section 3.

## MADHYA PRADESH BILL

No. 4 OF 2010.

**MAHARSHI PANINI SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN)  
VIDHEYAK, 2010.**

**A Bill to amend Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2006.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-First Year of the Republic of India as follows:—

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Short title.             | 1. This Act may be called the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.   |
| Amendment of citation.   | 2. In the citation of the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2006 (No. 15 of 2008) (hereinafter referred to as the principal Act), after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted.                     |
| Amendment of long title. | 3. In the long title of the Principal Act, after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted.  |
| Amendment of Section 1.  | 4. In Section 1 of the Principal Act, after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted.   |
| Amendment of Section 2.  | 5. In Section 2 of the Principal Act, in clause (h), after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted.  |
| Amendment of Section 3.  | 6. In Section 3 of the principal Act,—<br>(i) in the marginal heading, after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted;<br>(ii) In sub-section (1), after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted. |

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

In order to develop Sanskrit language and for advancement and dissemination of Knowledge in the field of Sanskrit Education, Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya is established in Ujjain under the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2006 (No. 15 of 2008).

2. Early form of Sanskrit contained in the Vedas of Indian mythology. Sanskrit is the sole language of Vedas. In order to learn and acquire the Knowledge of Sanskrit, it is necessary to learn the Vedas in their original form. Therefore, it is decided to insert the word "Vedic" in the short title of the Principal Act by suitable amendment.

3. Hence this Bill.

Bhopal :  
Dated, the 9th March, 2010.

DR. NAROTTAM MISHRA  
*Member-in-Charge.*